

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 832 ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2019 — अग्रहायण 16, शक 1941

राजभवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक 5833/1024/2017/रास/यू.-20. — इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक 3733/1024/2017/रास/यू.-20 दिनांक 12-09-2019 द्वारा आई. एस. बी. एम. विश्वविद्यालय, गरियाबंद में कुलपति नियुक्ति हेतु छः सप्ताह की समयावधि में न्यूनतम तीन ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों की नाम-सूची (पेनल) प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 17 की उपधारा (2) में निहित प्रावधान अंतर्गत डॉ. अखिलेश कुमार भट्ट, क्षेत्रीय निदेशक, एन. आई. ओ. एस.-एम. एच. आर. डी., भारत सरकार की अध्यक्षता में खोज समिति का गठन किया गया है.

माननीय कुलाध्यक्ष, आई. एस. बी. एम. विश्वविद्यालय, गरियाबंद द्वारा कुलपति नियुक्ति हेतु न्यूनतम तीन ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों की नाम-सूची (पेनल) प्रस्तुत करने के लिए पुनः 06 सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है.

हस्ता./-

(रोहितमा यादव)  
राज्यपाल के उप-सचिव.